

>

Title: Need to protect rivers in the country.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैष्णवी): सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गंगा जी को निर्मल करने का सवाल उठाया है। उन्होंने यमुना जी का भी सवाल उठाया, पर उसे कम कर दिया। मैं आपको याद करना चाहता हूँ, आपको जरूर याद होगा, भारतेन्दु हरीश्वरनंद की कविता-

तरनी तनुजा तट तमाल तख्वर बहु छाए।

झुके फूल यो जल प्रसन्न हित बहुरि सुझाए॥

महोदय, यह यमुना नदी के विषय में है। महोदय, अभी आपको आसन पर देखकर मैं उत्साहित हो गया। छाल में मैं मथुरा जी गया था, वहां जब द्वारकाधीश के मंदिर, और बाके बिहारी के मंदिर गया तो फिर तोग मुझे विश्राम घाट ले गए। विश्राम घाट पर वहां जो पंडा जी थे, हमें संयोग से पहचान गए, टीवी इत्यादि में देखते होंगे। उन्होंने कहा कि अब हमारा मथुरा जी का कल्याण हो जाएगा, यमुना जी की सफाई हो जाएगी। वे तोग मुझे यमुना नदी के किनारे ले गए।

वहां के तोग यमुना के किनारे पानी की नली, लौहे के पाइप की नली लगाए हुए हैं। उसमें से पानी निकल रहा है, उसी पानी से तोग कुल्ता करते हैं और अपने देह पर भी छिड़कते हैं। वहां यमुना नदी का जल ऐसा नहीं है कि देह पर छिड़का जा सके और आहमन किया जा सके। नली में पानी आ रहा है, हमें नली का पानी नदी के पानी से साफ लगा। जब कि नली का पानी साफ नहीं होता, इसलिए उस पानी के साफ होने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इससे भी गंदा पानी यमुना का है। सरकार या प्रृथक्षण पर्यावरण विभाग कहां है? निर्दियों को साफ करने की योजना कहां नहीं? डॉ. रामगणोहर लौहिया जी ने कहा था कि निर्दियों को साफ करें, इसके लिए कोई बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। यह भूमि है छिन्दुस्तान की, दुनिया की निर्दियों के किनारे जंगल बसते हैं, लेकिन हमारे यहां निर्दियों के किनारे गंगाजी, यमुनाजी, कावेरी, सभ्यता एवं संरक्षित उन्नती है। जहां निर्दियों के किनारे जंगल उन्नते हैं, हमारे यहां सभ्यता एवं संरक्षित उन्नती है। यहां गंगा है, दिल्ली में यमुना नदी है। इसी तरह से मथुरा, इताहाबाद एवं पूर्णा में उन्नती है। योगी आदित्य नाथ जी बता रहे हैं कि हमारी आस्था है। तोग कहते हैं - "जिस देश में गंगा बहती है, अतिथि जो हमारा होता है, वह पूर्ण से प्यारा होता है, उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। गंगा मेरी मां का नाम, बाप का नाम हिमातय, गंगा यमुना का" ... (व्याख्यान) तेरे मन की गंगा और मेरे मन की यमुना... (व्याख्यान)

सभापति महोदय: रघुवंश जी, आप चाहते क्या हैं?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: राधा-राधा नाम जपन भए, रवास के आमन-जामन से। ... (व्याख्यान)

हमारे एक फिल्म में एक गीत सुना है... (व्याख्यान)

सभापति महोदय, यमुना नदी की मथुरा में हमने जो दुर्दशा देखी, दिल्ली में दुर्दशा है, यमुना नदी एवं गंगा नदी की जो दुर्दशा है, सरकार एवं पर्यावरण विभाग कहां है, कहां हैं गज्य सरकार? ... (व्याख्यान) वाहे भारत सरकार हो, गज्य सरकार हो या विशेषज्ञ हों, तुंत कार्यबद्ध कार्यक्रम से मथुरा एवं दिल्ली में यमुना नदी की सफाई कराई जाए। गंगा नदी जब गर्भीय घोषित की जर्द है, ... (व्याख्यान) साथु तोग अनशन कर रहे हैं। ... (व्याख्यान) सरकार का कब इस तरफ ध्यान जाएगा? ... (व्याख्यान) क्या योजना है, कहां एवशन है, कहां पुराण है, यह हमारी सभ्यता एवं संरक्षित का चिन्ह है, गंगा, यमुना नदी, कावेरी, कृष्णा-गोदावरी, गोमती, इन सभी निर्दियों को साफ करने के साथ-साथ इन दोनों पर ज्यादा तरज्जु दी जानी चाहिए। ... (व्याख्यान)

सभापति महोदय: रघुवंश जी, इस समय इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। यह जीरो ऑवर है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। हम इसे होड़ने वाले नहीं हैं, इस पर अंतिम लड़ाई तड़ी जाएगी। ... (व्याख्यान)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 27th April 2012 at 11 a.m.

20.34 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, April 27, 2012 / Vaisakha 7, 1934 (Saka).

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded.

* Not recorded

* Speech was laid on the table

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the table

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the table

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* English translation of the speech laid on the Table and originally in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil